

## भाषा विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 24 जुलाई

केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि को 24 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 थी। सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है एवं इस माह के अंत तक नतीजे घोषित होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

विद्यार्थी विश्वविद्यालय के बीए एवं एमए पाठ्यक्रमों के अलावा बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए एवं बीए - जेएमसी में प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही वह बीटेक (सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस बायोटेक्नोलॉजी, फ्रैशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल, सिविल एवं एनवायरमेंट, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक, कंप्यूटर साइंस विद एआईडीएस में आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में बीएससी (भूगोल, गृह विज्ञान, भौतिक, रसायन, गणित, कंप्यूटर साइंस, एलेक्ट्रॉनिक जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सांख्यिकी, औद्योगिक रसायनशास्त्र के पाठ्यक्रमों में भी आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा विद्यार्थी एम कॉम, एमबीए, एमसीए, एमए- जेएमसी, एमएससी गृहविज्ञान, एम टेक (कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल, मेकाट्रॉनिक्स) एवं एलएलएम में प्रवेश के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा कई डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। विद्यार्थी UG डिप्लोमा अरेबिक ट्रांसलेशन, PG डिप्लोमा अरेबिक ट्रांसलेशन, UG डिप्लोमा अरबिक जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा अरबिक जर्नलिज्म, UG डिप्लोमा GST, PG डिप्लोमा कैपिटल मार्केट एवं इन्वेस्टमेंट, PG डिप्लोमा उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, UG डिप्लोमा मेनुस्क्रिप्टोलॉजी एंड पेलियोग्राफी, PG डिप्लोमा पर्शियन ट्रांसलेशन) में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में पिछले अकादमिक सत्र से विद्यार्थियों के लिए प्रोफेसिंसी इन फ्रेंच, बी फार्मिंग, संस्कृत, हिन्दुस्तानी वोकल में सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ किए हैं जिनमें विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं।

विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वारा आवेदक <http://kmcluonline.in> पर ऑनलाइन फॉर्म भर, लिंक द्वारा शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।